

दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने "कानपुर नगर की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था एवं अतिक्रमण तथा अन्य मूद्दों पर बातचीत तथा प्रस्तावित सुझाव के लिए" एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया ।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी ने श्री अनुराग आर्या, जिला वरिष्ठ अधीक्षक, पुलिस अधिकारीगण, कानपुर की व्यापारिक संस्थाओं से उपस्थित सदस्यगणों तथा मीडियाकर्मियों का स्वागत किया । श्री लाहोटी ने मुख्य रूप से कानपुर में अतिक्रमण, शहर में जाम, एवं अन्य समस्याएँ श्री आर्या जी के सामने रखी । श्री लाहोटी ने कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारी बंधुओं को सूचित किया की आज की गोष्ठी श्री आर्या जी के समक्ष परोक्ष रूप से समस्याओं को तथा उनके सम्बन्धित सुझावों को रखने के लिए आयोजित की गई है ।

श्री लाहोटी ने मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से श्री अनुराग आर्या, जिला वरिष्ठ अधीक्षक, को एक ज्ञापन सौपा जिसमें कानपुर नगर में व्याप्त समस्याओं तथा सम्बन्धित सुझावों का उल्लेख किया गया है ।

मर्चेट्स चैम्बर द्वारा प्रेषित ज्ञापन उक्त प्रेस-विज्ञप्ति में संलग्न है, कृपया प्राप्त करें ।

सत्र में कानपुर से उपस्थित विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं से उपस्थित प्रतिनिधियों ने शहर के जाम की समस्या, अतिक्रमण, ट्रकों के उत्पीड़न, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी तथा अन्य मुद्दों को श्री आर्या जी के समक्ष रखा ।

श्री अनुराग आर्या, जिला वरिष्ठ अधीक्षक, ने प्रेषित समस्त समस्याओं तथा सम्बन्धित सुझावों को उठावत नोट किया तथा आश्वस्त किया कि प्रत्येक सुझावों को अमल में लाया जाएगा । श्री आर्या जी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में शहर में अपराधिक गतिविधियों में काफी कामी आई है तथा पुलिस लगातार इसी दिशा में और प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार अपराध को पूरी तरह जड़ से खत्म किया जाए ।

सत्र का संचालन श्री शेष नारायण त्रिवेदी ने किया ।

गोष्ठी में उपस्थित गणमान्य: मर्चेट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.एम.गर्ग, श्री अविनाश चतुर्वेदी, श्री विजय पांडे, श्री सुनील गुप्ता, श्री विनय द्विवेदी, श्री ज्ञानेश मिश्रा, श्री उमंग अग्रवाल, श्री श्याम शुक्ला, श्री चन्द्र प्रकाश, तथा आई.आई.ए., पी.आई.ए., कानपुर उद्योग व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सर्राफा एसोसिएशन, तथा कानपुर की अन्य व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे ।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

